

(ख) यदि हाँ, तो यह तारापुर में इस्तेमाल के लिये कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :
(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Transfer of the Haig Barracks at Malappuram

5071. SHRI G. M. BANATWALA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Ministry had informed the Government of Kerala in or about August, 1977 that pursuant to the request of the Kerala Government instruction had been issued to the local Military Authorities for transfer of the Haig Barracks at Malappuram to the State Government to enable it to house the Government College;

(b) if so, why the instructions have not as yet been carried out; and

(c) what steps have been taken to expedite the transfer?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Transfer of Defence assets is still outstanding for two reasons. First, the unit located at Malappuram has not yet moved out. Secondly, the State Government has not been able to hand over the entire land required by the Army at Trivandrum and Mookkunnamalai. The State Government has been advised to expedite the handing over of the land to the Army. Steps are also being taken by this Ministry to expedite the transfer of assets to the State Government.

सरकारी नौकरी के लिये आवेदकों द्वारा जमा की गई राशि

5072. श्री नाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नौकरी के लिए आवेदन करने समय बेरोजगार लोगों द्वारा 'पोस्टल आर्डरों' के रूप में बड़ी राशि जमा की जाती है ; और

(ख) इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राध मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं श्रीमान, केवल फार्मों का विक्री मूल्य तथा उन पर कार्यवाही के लिए निर्धारित फीस ही वसूल की जाती है, जो अपेक्षाकृत कम है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

जयपुर में दूरदर्शन कार्यक्रम

5073. श्री जयवंश प्रताप भापुर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर दूरदर्शन केन्द्र से किये गए प्रसारणों की अवधि क्या है ;

(ख) क्या वर्तमान कार्यक्रमों के बारे में दूरदर्शन के दर्शकों की रुचि और विचारों को जानने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रयास किये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थानी, भाषा लोक नृत्य और कला की दृष्टि से इस केन्द्र से अब तक कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया है ;

(घ) क्या भोपाल से प्रसारित 'आंगन कारकम' भी राजस्थान के लोगों के जीवन को चित्रित नहीं करता है; और

(ङ) जयपुरकेन्द्र से रुचिकर और प्रभावी कार्यक्रमों को प्रसारित करने सम्बन्धी सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जयपुर दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र शाम को प्रतिदिन दो घंटे का कार्यक्रम और मुजह मप्ताह में पांच दिन (बुधवार और रविवार को छोड़कर) आध घंटे का प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, नहीं। इस प्रकार के कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जा रहे हैं।

(घ) ऐसा अनुमान है कि यह संबंध कृषकों का सम्बोधित आध घंटे के उस कार्यक्रम के बारे में है जो जयपुर, रायपुर और मुजफ्फरपुर के दूरदर्शन प्रेषण केन्द्रों में मप्ताह में छः दिन टेलीकास्ट होता है। (भोपाल में कोई दूरदर्शन ट्रांसमीटर नहीं है)। छः कार्यक्रम में से, एक को विशेष रूप से प्रत्येक प्रेषण केन्द्र को निर्देशित किया जाता है और शेष कार्यक्रम सभी केन्द्रों के लिए एक समान हैं। एक समान कार्यक्रमों में अन्य राज्यों के साथ-साथ राजस्थान को भी स्थान मिलता है।

(ङ) फिलहाल तीनों प्रेषण केन्द्रों के लिए कार्यक्रम दिल्ली स्थित बेस प्रोडक्शन सेंटर में तैयार किए जाते हैं जिसे यथाशीघ्र जयपुर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

Freedom of Press

5074. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement of President of the All India Newspapers Editors' Conference which appeared in Hindustan Times dated 19th July, 1978 saying that some state Ministers had recently taken an unduly aggressive attitude towards the press and some State Ministers have threatened correspondents with dire consequences;

(b) if so, the reaction of the Government in the matter?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) These matters fall within the purview of State Governments. Such complaints can, however, be taken cognisance of by the Press Council when it is set up.

श्री राम सागर, संसद् सदन पर हस्ता

5075. श्री राम नरेश कुशावाहा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 18 जून, 1978 को वाराणसी में कबीर चौरा स्थान पर श्री राम सागर संसद् सदन पर किये गये हमले की जानकारी है ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस हमले के पीछे उनका क्या उद्देश्य था ;

(ग) इस गैर-इंसानी कार्य के लिये जिम्मेदार लोगों को क्या सजा दी गई है ;